



## नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, चार हिरासत में

हिंदी न्यूज़ |

उत्तर प्रदेश |

बागपत

Publish Date: Sun, 09 Aug 2020 06:13 AM (IST)



पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के न्यू रामनगर कालोनी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी।

बागपत, जेएनएन। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के न्यू रामनगर कालोनी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां नकली शराब बनती हुई मिली। पुलिस ने मौके से चार आरोपितों को हिरासत में लिया है। फैक्ट्री से नकली शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ।

कोतवाली प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि न्यू रामनगर कालोनी में आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर एक मकान पर छापा मारा तो वहां शराब की फैक्ट्री चलती हुई मिली। मौके पर नकली शराब बनाने का सामान और देशी नकली शराब भी बरामद हुई है। पुलिस ने चार आरोपितों को हिरासत में ले लिया, जो शराब बना रहे थे।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मौके से सौ से ज्यादा देशी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, जिनमें नकली शराब है। हिरासत में लिए चारों आरोपित क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आरोपितों ने बताया कि शराब को बनाने के बाद क्षेत्र में सप्लाई किया जाता था। आरोपितों से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा था कि यह शराब किस-किस गांव, कस्बे और शहर में सप्लाई किया जाता था और कौन-कौन लोग इससे जुड़े थे। सफेदपोश हैं शामिल

-शराब फैक्ट्री में नकली शराब बनाने में सफेदपोश के शामिल होने की चर्चा है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी नहीं बोल रही। पुलिस बस मामले की जांच के बाद ही राजफाश करने का दावा कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में बनी शराब को गांवों में बेचा जाता है। पिछले दिनों बसौद गांव में एक व्यक्ति की नकली शराब पीने से मौत हुई थी, लेकिन परिजनों ने कोई शिकायत नहीं की थी।

Posted By: **Jagran**

Source: [https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-liquor-factory-20606065.html?utm\\_source=izooto&utm\\_medium=push\\_notifications&utm\\_campaign=recover-abandoned-tab&utm\\_content=notification1&utm\\_term=&utm\\_expid=.W6HdjhiBQ-ml0nTAajwI9g.0&utm\\_referrer=](https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-liquor-factory-20606065.html?utm_source=izooto&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=recover-abandoned-tab&utm_content=notification1&utm_term=&utm_expid=.W6HdjhiBQ-ml0nTAajwI9g.0&utm_referrer=)